

TYPO3 v9 LTS रिलीज !

GDPR स्वीकृति और बेहतर मल्टीसाइट सुविधा के साथ।

TYPO3 संगठन ने TYPO3 CMS का एक नया लॉन्ग-टर्म सपोर्ट वर्जन जारी किया है, जो PHP आधारित वेब डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म है और व्यापक रूप से दुनिया भर के एंटरप्राइज़ बाजार में उपयोग किया जा रहा है। यह नया वर्जन आने वाले छह वर्षों के लिए समर्थित रहेगा।

बार, स्विट्ज़रलैंड, 2 अक्टूबर 2018

TYPO3 एसोसिएशन के अध्यक्ष ओलिवियर डोबरबर्ग कहते हैं, "वर्जन 9 LTS का जारी होना एक और सबूत है, TYPO3 को स्केलेबल और विश्वसनीय ओपन सोर्स एंटरप्राइज़ वेब डेवलपमेंट बनाने के निरंतर फोकस का"। "विशेष रूप से, यह और हर स्प्रिंट रिलीज समय के साथ बाहर आया है"।

TYPO3 GmbH कंपनी के CEO मथियास श्राइबर कहते हैं, "आपकी अगली वेबसाइट के लिए TYPO3 को चुनने का यही सबसे बेहतर समय है।" "हमारे एजेंसी सहभागी तकनीकी विकास में सबसे आगे रहने वाला CMS प्रदान करते हैं।"

सुनियोजित ग्राहक सुरक्षा और गुप्तता

नई रिलीज में 100 से अधिक विशेषताएँ शामिल हैं जो आधुनिक वेबसाइट को आसान और अधिक सुरक्षित बनाती हैं। इसमें GDPR स्वीकृति शामिल है: TYPO3 अब IP-एड्रेस नामरहितता और कुकी-मुक्त YouTube मूवीज़ का समर्थन करता है, साथ ही निष्क्रिय उपयोगकर्ताओं को अपने आप दूर करने की संभावना देता है।

TYPO3 हमेशा से ही सुरक्षा को महत्व देता रहा है इसी लिए सभी पासवर्ड Argon2i और PBKDF2 जैसे क्रिप्टोग्राफिक विधि और इंडस्ट्री-स्टैंडर्ड जैसे एल्गोरिदम के उपयोग से एन्क्रिप्ट किए जाते हैं।

SEO, मल्टीसाइट, और डेवलपमेंट

TYPO3 में डिफॉल्ट रूप से कई SEO संबंधित सर्वोत्तम विशेषताएँ उपलब्ध हैं। सरल युसर इंटरफेस के साथ URL हैंडलिंग अब एक प्रभावशाली फीचर के तौर पे TYPO3 में जुड़ चुका है।

TYPO3 अपने विकास में योगदान करने के लिए रोस्टॉक, बेसल, वियना, होहेनहेम और वुपरेटल, होचसचुले ओस्नाब्रुक और म्यूनिख के तकनीकी विश्वविद्यालयों का शुक्रिया अदा करना चाहता है।

TYPO3 ने हमेशा एक ही बैकेंड में एक से ज्यादा वेबसाइटों को चलाने का समर्थन दिया है। साइटों को मनेज करने के तरीके को अब फिर से बनाया और सुधारा गया है जिससे साइट एडमिनीस्ट्रेटर का समय बच सके।

डेवलपर्स नई वेबसाइट को तेजी से बना रहे हैं क्योंकि अब TYPO3 CMS सपोर्ट कर रहा है SQLite जैसे लोकप्रिय, हल्के और फ़ाइल-आधारित डेटाबेस जो PHP में मूल रूप से समर्थित है। साथ साथ MySQL, MariaDB, MSSQL और PostgreSQL जैसे डेटाबेस को भी लम्बे समय तक समर्थित है।

यह वर्जन सबसे बेहतर अपडेट है। एक नया एक्सटेंशन स्कैनर कस्टम कोड में ब्रेकिंग बदलाव और गलतियों की पहचान करेगा और सजेस्ट डॉक्यूमेंटेशन और माइग्रेशन पथ का सुझाव देगा।

प्रोडक्ट की जानकारी

[TYPO3.org](https://typo3.org) पर आप TYPO3 को डाउनलोड कर सकते हैं और उसके बारे में अधिक जानकारी पा सकते हैं। TYPO3 से संबंधित सेवाओं के लिए [TYPO3.com](https://typo3.com) पर TYPO3 कंपनी की कमर्शियल भागीदारों की सूची पर जाएं, जहां पुरानी TYPO3 LTS वर्जन के समर्थन के लिए Paid Extended Long Term Support (ELTS) की योजना को आप खरीद सकते हैं।

TYPO3 एसोसिएशन और TYPO3 GmbH के बारे में

TYPO3 एसोसिएशन TYPO3 CMS के लम्बे समय के विकास को बढ़ाने के लिए सेवा, धन तथा समर्थन देता है। यह एक गैर लाभकारी संगठन है जो जनता को मुफ्त में सॉफ्टवेयर प्रदान करता है। TYPO3 एसोसिएशन स्विट्सर्लैंड के अनुसार एक एसोसिएशन है जिसे नवंबर 2004 में TYPO3 संगठन के सदस्यों द्वारा स्थापित किया गया था।

इसका मुख्यालय बार ZG, स्विट्ज़रलैंड में है। TYPO3 एसोसिएशन गैर पक्षपात-पूर्ण और संवैधानिक रूप से तटस्थ संगठन है। सदस्यों, उद्देश्यों और निधि निवेश के अवसरों के बारे में अधिक जानकारी यहां मिल सकती है: <https://typo3.org/project/association/>

TYPO3 GmbH TYPO3 एसोसिएशन द्वारा समर्थित सेवाओं को प्रदान करने और TYPO3 CMS सॉफ्टवेयर के विकास के लिए स्थापित सेवा कंपनी है। TYPO3 कंपनी के बारे में अधिक जानकारी <https://typo3.com> पर मिल सकती है

Press Contact:

press@typo3.com

+49 (0)211 20 54 36 0